

धारा 144 – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) का आदेश · पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 का स्थान
मूल पाठ (bare Act, अंग्रेज़ी – यथावत) और हर उप-धारा का हिंदी सार · शुभम ओझा एवं एसोसिएट्स, अधिवक्ता, राजस्थान
उच्च न्यायालय, जोधपुर

एक नज़र में

कौन माँग सकता है – पत्नी (तलाकशुदा भी, जब तक पुनर्विवाह न हो), नाबालिग संतान, शारीरिक/मानसिक अक्षमता वाली वयस्क संतान, और माता-पिता। कहाँ – प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / पारिवारिक न्यायालय। कब से – आदेश की तारीख से, या आदेश हो तो आवेदन की तारीख से (उप-धारा 2)। अंतरिम भरण-पोषण – नोटिस की तामील से यथासंभव 60 दिन में निर्णय। पालन न होने पर – वारंट, और हर माह के बकाये पर एक माह तक कारावास; वसूली का आवेदन एक वर्ष के भीतर (उप-धारा 3)।

144(1)

If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain— (a) his wife, unable to maintain herself; or (b) his legitimate or illegitimate child, whether married or not, unable to maintain itself; or (c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself; or (d) his father or mother, unable to maintain himself or herself, a Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such Magistrate thinks fit and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct: Provided that the Magistrate may order the father of a female child referred to in clause (b) to make such allowance, until she attains her majority, if the Magistrate is satisfied that the husband of such female child, if married, is not possessed of sufficient means: Provided further that the Magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this sub-section, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the Magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct: Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of the service of notice of the application to such person.
Explanation.—For the purposes of this Chapter, “wife” includes a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband and has not remarried.

हिंदी सार (1) – यदि पर्याप्त साधन रखने वाला कोई व्यक्ति – (a) अपनी पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो; (b) अपनी वैध या अवैध संतान (विवाहित हो या न हो), जो अपना भरण-पोषण न कर सके; (c) अपनी वयस्क वैध या अवैध संतान (विवाहित पुत्री को छोड़कर), जो शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण स्वयं का भरण-पोषण न कर सके; या (d) अपने पिता या माता, जो अपना भरण-पोषण न कर सकें – का भरण-पोषण करने में उपेक्षा या इनकार करता है, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के सबूत पर, मासिक भत्ते का आदेश दे सकता है। पहला परन्तुक – नाबालिग पुत्री के लिए पिता को आदेश दिया जा सकता है, यदि उसका पति (विवाहित होने पर) साधन-संपन्न न हो। दूसरा परन्तुक – कार्यवाही लंबित रहते अंतरिम

भरण-पोषण (interim maintenance) और मुकदमे के खर्च का आदेश। तीसरा परन्तुक — अंतरिम भरण-पोषण का आवेदन नोटिस की तामील से यथासंभव 60 दिन में निपटाया जाए। स्पष्टीकरण — “पत्नी” में वह तलाकशुदा स्त्री भी शामिल है जिसने पुनर्विवाह न किया हो।

144(2)

Any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding shall be payable from the date of the order, or, if so ordered, from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be.

हिंदी सार (2) — भत्ता आदेश की तारीख से देय होगा, या — यदि न्यायालय ऐसा आदेश दे — आवेदन की तारीख से।

144(3)

If any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such Magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person, for the whole or any part of each month's allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to one month or until payment if sooner made: Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the Court to levy such amount within a period of one year from the date on which it became due: Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him, and she refuses to live with him, such Magistrate may consider any grounds of refusal stated by her, and may make an order under this section notwithstanding such offer, if he is satisfied that there is just ground for so doing. Explanation.—If a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife's refusal to live with him.

हिंदी सार (3) — आदेश का पालन बिना पर्याप्त कारण न करने पर मजिस्ट्रेट हर उल्लंघन के लिए वारंट जारी कर सकता है (जुर्माने की वसूली की रीति से), और वारंट के बाद भी बकाया रहने पर हर माह के भत्ते के लिए एक माह तक का कारावास या भुगतान होने तक। पहला परन्तुक — वसूली का आवेदन राशि देय होने से एक वर्ष के भीतर करना होगा। दूसरा परन्तुक — यदि पति साथ रहने की शर्त पर भरण-पोषण की पेशकश करे और पत्नी इनकार करे, तो मजिस्ट्रेट इनकार के कारणों पर विचार कर उचित आधार होने पर फिर भी आदेश दे सकता है। स्पष्टीकरण — पति का दूसरा विवाह करना या रखल रखना पत्नी के इनकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा।

144(4)

No wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding, from her husband under this section if she is living in adultery, or if, without any sufficient reason, she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent.

हिंदी सार (4) — ऐसी पत्नी भत्ते की हकदार नहीं होगी जो व्यभिचार में रह रही हो, या बिना पर्याप्त कारण पति के साथ रहने से इनकार करे, या दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हों।

144(5)

On proof that any wife in whose favour an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the Magistrate shall cancel the order.

हिंदी सार (5) — उपरोक्त में से कोई बात सिद्ध होने पर मजिस्ट्रेट पहले दिया गया आदेश रद्द करेगा।

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम सं. 46 of 2023)। अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक है; हिंदी सार अनौपचारिक अनुवाद है और केवल समझने के लिए है। यह दस्तावेज़ सामान्य विधिक जानकारी है, विधिक परामर्श नहीं।

पूरा लेख — गुजारा भत्ता कितना और कब से मिलता है: shubhamojhaandassociates.com/articles/bharan-poshan-gujara-bhatta-dhara-144-bnss-hi.html · +91 70230 51275 · H.No. 245, Sardar Club के सामने, रातानाडा, जोधपुर 342001